



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700]

No. 700]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 2, 2002/श्रावण 11, 1924

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 2, 2002/SRAVANA 11, 1924

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2002

का.आ. 824(अ).—पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 5 मार्च, 1998 को भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) असाधारण में प्रकाशित दिनांक 5 मार्च, 1998 की वस्त्र मंत्रालय का.आ. संख्या 167(अ), भारत सरकार के आदेश को प्रतिस्थापित करते हुए, इस प्रकार के प्रतिस्थापन के पूर्व किये गये तथा न किये जाने वाली चीजों के संबंध में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि निम्न तालिका के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट वस्तु के मामले में उक्त तालिका के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा :—

तालिका

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	वस्तु और क्षेत्राधिकार	दी गई शक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पटसन आयुक्त, कोलकाता अथवा संयुक्त सचिव (नीति), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय अथवा उप पटसन आयुक्त अथवा उप निदेशक, पटसन आयुक्त का कार्यालय	खाद्यान्न और चीनी। संपूर्ण भारत	*धारा 6, 7 और 8
2.	औद्योगिक मलाहकार, पटसन आयुक्त का कार्यालय	खाद्यान्न। संपूर्ण भारत	* *धारा 6, 7 और 8

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	मुख्य निदेशक (चीनी) खाद्य विभाग, भारत सरकार	चीनी। संपूर्ण भारत।	*धारा 6, 7 और 8

* धारा 6—सूचना और नमूने संग्रहीत करने के लिए अधिकार

* धारा 7—प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार

* धारा 8—छानबीन और जफ़्त करने का अधिकार

[फा. सं. 9/8/2001-पटसन]

टी. नन्दकुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2002

S.O. 824(E).—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Textiles S.O. No. 167(E) dated 5th March, 1998 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 5th March, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under the provisions of the said Act as specified in column (4) of the Table below shall be exercisable also by the Officers as specified in column (2) of the said Table in respect of commodity as specified in column (3) of the aforesaid Table, namely :—

TABLE

S. No.	Designation of the Officer	Commodity and jurisdiction	Powers delegated
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jute Commissioner, Kolkata. or Joint Secretary (Policy) Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution or Deputy Jute Commissioner or Deputy Directors, Office of the Jute Commissioner	Foodgrains and Sugar. All over India	*Sections 6, 7 and 8
2	Industrial Advisor, Office of the Jute Commissioner	Foodgrains. All over India	*Sections 6, 7 and 8
3	Chief Director (Sugar), Department of Food, Government of India	Sugar. All over India.	*Sections 6, 7 and 8

*Section 6—Power to call for information and samples

*Section 7—Power to enter and inspect

*Section 8—Power to search and seize.

[F. No 9/8/2001-Jute]

T. NANDAKUMAR, Jt. Secy.